



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1110) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2015

सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)—11-05/2015/1732—श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह (आई0 डी0-3502), कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्रम में यह ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका-2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने का निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी है साथ ही मिट्टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय पत्रांक मो0-2 सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012-779/पटना दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय?

उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 523 दिनांक 01.06.2015 में कहा गया कि संवेदक द्वारा समर्पित ओ0 आई0 एस0 (पुनरीक्षित) के अनुसार दिनांक 27.05.2015 तक इन्हें मिट्टी कार्य 1.89 लाख घनमीटर तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 839 घनमीटर करना था, किन्तु इनके द्वारा मिट्टी कार्य 1.50 लाख घनमीटर एवं पी0 सी0 सी0 कार्य 2000 घनमीटर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से मिट्टी कार्य 0.39 लाख घनमीटर कम तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 1161 घनमीटर अधिक है, जिसका ओभर ऑल राशि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है कराये गये कार्य

की राशि लक्ष्य से अधिक रहने के कारण राशि की कटौती नहीं की गयी। इस राशि को अगले विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मोनिटरिंग अंचल स्तर पर की गई। जिसमें पाया गया कि इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के अनुसार प्रत्येक आईटम में ओ0 आई0 एस0 के अनुरूप प्रगति होनी चाहिए एवं जिस आईटम के विरुद्ध प्रगति नहीं होती है उसमें एकरारनामा के अनुसार दंड स्वरूप कटौती करनी है। अतः श्री सिंह ने न केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया बल्कि अपने नियंत्री पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया।

वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया—

“असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक”।

अतएव एतद् द्वारा श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उक्त दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1110-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>